

रैल नं..... नाम परीक्षार्थी.....

XII-6

अर्द्धवार्षिक परीक्षा सन् 2022-23 ई०

A

### गणित (केवल प्रश्न-पत्र)

समय - 3.00 घण्टा

कक्षा - 12

पूर्णांक - 100

नोट :- सभी प्रश्न हल करना अनिवार्य है। सभी प्रश्नों के निर्धारित अंक उसके समान अंकित हैं।

1. सभी खण्डों के सही विकल्प चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका पर लिखिए :- 6

(a) समाकलन  $\int \log x \, dx$  का मान है :-

~~(i)~~  $\frac{1}{x} + c$

~~(ii)~~  $\log x - x + c$

~~(iii)~~  $x \log x + c$

~~(iv)~~  $x \log x - \log x + c$

(b) x तथा y के मान क्या होंगे, यदि  $\begin{bmatrix} x & y \\ 3y & x \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 \\ 5 \end{bmatrix}$  हो

~~(i)~~ 2, 2

~~(ii)~~ 3, 3

~~(iii)~~ 1, 1

~~(iv)~~ 4, 5

(c) अवकल समीकरण  $\frac{d^2y}{dx^2} + \left(\frac{dy}{dx}\right)^3 + y^4 = 0$  की धात है :-

~~(i)~~ 1

~~(ii)~~ 2

~~(iii)~~ 3

~~(iv)~~ 4

(d) निम्न फलनों में असंतत फलन है :-

~~(i)~~  $\sin x$

~~(ii)~~  $x^2$

~~(iii)~~  $\frac{1}{1-2x}$

~~(iv)~~  $\frac{1}{1+x^2}$

(e) वक्र  $y = 2x^2 + 3\sin x$  के  $x = 0$  पर अभिलम्ब की प्रवणता है :-

~~(i)~~ 3

~~(ii)~~  $\frac{1}{3}$

~~(iii)~~ -3

~~(iv)~~  $-\frac{1}{3}$

(f)  $\tan^{-1} \sqrt{3} - \sec^{-1} (-2)$  का मान बरावर है :-

~~(i)~~  $\pi$

~~(ii)~~  $-\frac{\pi}{3}$

~~(iii)~~  $\frac{\pi}{3}$

~~(iv)~~  $\frac{2\pi}{3}$

(पृष्ठ पलटिए)

12/6

2. सभी खण्डों को हल कीजिए :-

(a) यदि  $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 3 & 1 \end{bmatrix}$  तथा  $B = \begin{bmatrix} 3 & -1 & 3 \\ -1 & 0 & 2 \end{bmatrix}$  हो तब  $2A - B$  का मान

जात कीजिए।

(b)  $\int \frac{x}{e^x} dx$  का मान जात कीजिए।

(c) फलन  $f(x) = \sin 3x + y$  के उच्चतम मान (यदि कोई विद्यमान हो) जात कीजिए।

(d) सिद्ध कीजिए कि  $R$  पर  $f(x) = e^{2x}$  से प्रदत्त फलन निरन्तर वर्धमान है।

(e) अवकल समीकरण  $\frac{d^3x}{dt^3} + \frac{d^2x}{dt^2} + \left[ \frac{dx}{dt} \right]^2 = e^x$  की कोटि तथा घात

जात कीजिए।

3. सभी खण्डों को हल कीजिए :-

12

(a) यदि  $A = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 1 \\ 2 & 1 & 3 \\ 1 & -1 & 0 \end{bmatrix}$  है तब  $A^2 - 5A + 6I$  का मान जात कीजिए।

(b) दर्शाइए कि फलन  $f(x) = x^2 + 5x + 3$  बिन्दु  $x = 3$  पर सतत है।

(c) फलन  $f(x)$  जो निम्न प्रकार परिभाषित है  $f(x) =$

$$\begin{cases} \frac{\cos x}{\frac{\pi}{2} - x}, & x \neq \frac{\pi}{2} \\ 1, & x = \frac{\pi}{2} \end{cases} \quad x = \frac{\pi}{2} \text{ पर } f(x) \text{ की सततता का परीक्षण कीजिए।}$$

(d)  $\int \frac{\sin x + \cos x}{\sqrt{1 + \sin 2x}} dx$  का मान जात कीजिए।

4. सभी खण्डों को हल कीजिए :-

12

(a) सदिश  $\vec{a} = \hat{i} - 2\hat{j} + \hat{k}$ ,  $\vec{b} = -2\hat{i} + 4\hat{j} + 5\hat{k}$  और  $\vec{c} = \hat{i} - 6\hat{j} - 7\hat{k}$  का योगफल जात कीजिए।

(b)  $\int (x^2 + 1) \log x dx$  का मान जात कीजिए।

(c) वक्र  $y^2 = x^3$  के बिन्दु  $(4, 8)$  पर अभिलम्ब का समीकरण जात कीजिए।

(d)  $\sin^2 y + \cos x y = k$  तो  $\frac{dy}{dx}$  जात कीजिए।

5. निम्न में से किन्हीं पाँच खण्डों को हल कीजिए :-

- (a)  $\tan^{-1}(1) + \cot^{-1}\left(\frac{-1}{2}\right) + \sin^{-1}\left(\frac{-1}{2}\right)$  को हल कीजिए।
- (b) यदि  $\vec{A} + 2\vec{b} + 3\vec{c} = 0$  हो तो  $(\vec{b} \times \vec{c}) + (\vec{c} \times \vec{a}) + (\vec{a} \times \vec{b})$  का मान ज्ञात कीजिए।
- (c) यदि  $y = e^{\cos^{-1}x}$ ,  $-1 \leq x \leq 1$  तो दर्शाइए कि  $(1 - x^2) \frac{d^2y}{dx^2} - \frac{dy}{dx} - a^2y = 0$
- (d) सिद्ध कीजिए कि  $n$  के सभी मानों के लिए सरल रेखा  $\frac{x}{a} + \frac{y}{b} = 2$  वक्र  $\left(\frac{x}{a}\right)^4 + \left(\frac{y}{b}\right)^4 = 2$  को बिन्दु  $(a, b)$  पर स्पर्श करती है।
- (e) फलन  $x^4 - 8x^3 + 22x^2 - 24x$  के उच्चतम तथा न्मूनतम मानों के लिए  $x$  के मान ज्ञात कीजिए।
- (f)  $\int \frac{\sin x + \cos x}{a^2 \sin^2 x - b^2 \cos^2 x} dx$  का मान ज्ञात कीजिए।

6. निम्नलिखित में से किन्हीं पाँच खण्डों को हल कीजिए :-

- (a)  $\sqrt{3 - 2x - 2x^2}$  का मान ज्ञात कीजिए।
- (b) रेखा  $y = 3x + 2$ ,  $x$  अक्ष एवं कोटियों  $x = -1$  एवं  $x = 1$  से धिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए।
- (c) अवकल समीकरण  $(xy^2 + x) dx + (yx^2 + y) dy = 0$  को हल कीजिए।
- (d) एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष A (1; 1, 2) B (2, 3, 5) और C (1, 5, 5) हैं।

- (e) यदि  $y = \tan^{-1}\left(\frac{2x}{1 - x^2}\right) + \tan^{-1}x$  है तो  $\frac{dy}{dx}$  का मान ज्ञात कीजिए।
- (f) सिद्ध कीजिए कि प्रतिचित्रण  $f : N \rightarrow N$  जो  $f(x) = 2x$ ,  $x \in N$  से परिभाषित है एकैकी और अन्तः क्षेपी है।

7. निम्नलिखित में से किसी एक खण्ड को हल कीजिए :-

- (a) निम्नलिखित समीकरण निकाय  $3x - 2y + 2z = 8$ ,  $2x + y - z = 1$  तथा  $4x - 3y + 2z = 4$  आवृह विधि से हल कीजिए।

### अथवा

- (b) सिद्ध कीजिए कि  $\int_0^{\pi/2} \frac{\sqrt{\cot x}}{1 + \sqrt{\cot x}} dx = \frac{\pi}{4}$